

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 684 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 दिसम्बर 2017 —पौष 1, शक 1939

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

क्रमांक एफ 15-19/2017/10-02 वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 (1972 का 53) की धारा 26क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, पचमढी अभ्यारण्य से इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची-एक में यथा दर्शित 11 ग्रामों को पृथक करती है तथा पचमढी अभ्यारण्य में, यथा संलग्नक अनुसूची-दो में दर्शित 28 ग्रामों को प्रतिधारित करती है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत वन्यप्राणी अभ्यारण्य से संबंधित उपबंध संलग्नक के रूप में रखे गए ग्रामों को लागू नहीं होंगे, तथापि पृथक किये गए ग्राम निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे, अर्थात् :-

(क)- ऐसे पृथक क्षेत्रों में इकोटूरिज्म को छोड़कर उत्खनन या अन्य औद्योगिक/वाणिज्यिक गतिविधियां अनुज्ञेय नहीं होंगी ।

(ख)- पृथक किए गए ग्रामों के लिये समुचित विनियम राज्य सरकार द्वारा विहित किए जायेंगे।

## अनुसूची-एक

पचमढी अभ्यारण्य से पृथक् किये गए ग्राम

अनुक्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)	ग्राम का प्रकार (3)	तहसील (4)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (5)
1	छिरई	राजस्व	पिपरिया	230.436
2	मेहन्दीखेड़ा	—तदैव—	—तदैव—	102.561
3	बिण्डाखेड़ा (डबरी)	—तदैव—	—तदैव—	129.66
4	मैली	—तदैव—	—तदैव—	66.83
5	चिल्लौद	—तदैव—	—तदैव—	127.716
6	मटकुली	—तदैव—	—तदैव—	458.837
7	मोहगांव	—तदैव—	—तदैव—	144.19
8	चंदन पिपरिया	—तदैव—	—तदैव—	97.021
9	पिसुआ	—तदैव—	—तदैव—	308.507
10	खारी	—तदैव—	—तदैव—	235.424
11	टेकापार	—तदैव—	—तदैव—	460.348
योग				2361.530

## अनुसूची-दो

पचमढी अभ्यारण्य के संलग्नक के रूप में प्रतिधारित ग्राम

अनुक्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)	ग्राम का प्रकार (3)	तहसील (4)	क्षेत्रफल हेक्टर में (5)	कोर/बफर (6)	अभ्युक्तियां (7)
1	पाठई मालगुजारी	राजस्व ग्राम	पिपरिया	43.961	कोर	वीरान
2	पाठई ठेकेदारी	—तदैव—	—तदैव—	60.426	—तदैव—	—तदैव—
3	खामखेडी (फिफेरी टोला एवं झेला टोला)	—तदैव—	—तदैव—	24.428	—तदैव—	विस्थापित
4	कांजीघाट	—तदैव—	—तदैव—	963.706	—तदैव—	—तदैव—
5	मोंगरा	—तदैव—	—तदैव—	123.352	—तदैव—	—तदैव—

6	जामुनडोंगा (तेन्दुखेडा टोला)	---तदैव---	---तदैव---	158.499	---तदैव---	---तदैव---
7	घोघरी (नेक्सा टोला)	---तदैव---	---तदैव---	75.543	---तदैव---	---तदैव---
8	मुआर (मनकछार टोला)	---तदैव---	---तदैव---	48.877	---तदैव---	---तदैव---
9	सोनपुर	---तदैव---	सोहागपुर	420.62	---तदैव---	---तदैव---
10	कूकड़ा	---तदैव---	---तदैव---	66.490	---तदैव---	---तदैव---
11	नांदनेर	---तदैव---	---तदैव---	25.680	---तदैव---	---तदैव---
12	धारगांव	वन ग्राम	पिपरिया	312.710	---तदैव---	---तदैव---
13	नानकोट	---तदैव---	---तदैव---	60.000	---तदैव---	---तदैव---
14	आंजनढाना	---तदैव---	---तदैव---	411.000	---तदैव---	---तदैव---
15	नयाखेडा	---तदैव---	---तदैव---	143.594	---तदैव---	---तदैव---
16	राईखेडा	---तदैव---	---तदैव---	273.550	---तदैव---	---तदैव---
17	पर्रासपानी	---तदैव---	---तदैव---	142.020	---तदैव---	---तदैव---
18	बिरजीखापा	---तदैव---	---तदैव---	161.874	---तदैव---	---तदैव---
19	धाना (कतिया खेरी)	राजस्व ग्राम	---तदैव---	131.495	---तदैव---	---
20	पगारा	---तदैव---	---तदैव---	29.547	---तदैव---	---
21	बारीआम	---तदैव---	---तदैव---	98.788	---तदैव---	---
22	चाकर	---तदैव---	---तदैव---	175.907	---तदैव---	---
23	सिंगानामा	---तदैव---	---तदैव---	318.347	---तदैव---	---
24	झिरिया	वन ग्राम	---तदैव---	77.690	बफर	---
25	नांदिया (गुटखेडा टोला)	राजस्व ग्राम	---तदैव---	183.477	---तदैव---	---
26	सुपडोंगर	---तदैव---	---तदैव---	146.932	---तदैव---	---
27	सांकरी	---तदैव---	---तदैव---	0.743	---तदैव---	---
28	चूरनी	---तदैव---	---तदैव---	486.885	---तदैव---	---
	योग			5165.680		

No.F-15-19/2017/10-2 In exercise of the powers conferred by section 26 A of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the State Government, hereby excludes the 11 villages as shown in Schedule-I appended to this notification from the Pachmarhi Sanctuary and retains the 28 villages shown in Schedule-II as enclosures in the Pachmarhi Sanctuary. The provisions related with Wildlife Sanctuary under the said Act shall not be applicable to the villages kept as enclosure. The excluded villages will however be subjected to the following conditions, namely :-

- (a) No mining or other industrial/commercial activity, except ecotourism, shall be permissible in such excluded areas;
- (b) Appropriate regulations for excluded villages shall be prescribed by the State Government.

Schedule - I

Villages to be excluded from Pachmarhi Sanctuary

S. No.	Name of village	Type of Village	Tehsil	Area in hectare
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Chhirai	Revenue Village	Pipariya	230.436
2	Mehandikera	-do-	-do-	102.561
3	Bindakera (Dhabri)	-do-	-do-	129.66
4	Maili	-do-	-do-	66.83
5	Chillod	-do-	-do-	127.716
6	Matkuli	-do-	-do-	458.837
7	Mohgaon	-do-	-do-	144.19
8	Chandan Pipariya	-do-	-do-	97.021
9	Pisua	-do-	-do-	308.507
10	Khari	-do-	-do-	235.424
11	Tekapar	-do-	-do-	460.348
Total				2361.530

Schedule II  
Villages of Pachmarhi Sanctuary to be retained as enclosure

S. No.	Name of Village	Type of Village	Tehsil	Area in hectare	Situated Core/Buffer	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pathai Malguzari	Revenue Village	Pipariya	43.961	Core	Uninhabited
2	Pathai Thekedari	-do-	-do-	60.426	-do-	-do-
3	Khamkhedi (Fiferi Tola & Jhela Tola)	-do-	-do-	24.428	-do-	Relocated
4	Kanjighat	-do-	-do-	963.706	-do-	-do-
5	Mongra	-do-	-do-	123.352	-do-	-do-
6	Jamundhonga (Tendukheda Tola)	-do-	-do-	158.499	-do-	-do-
7	Ghoghri (Neksa Tola)	-do-	-do-	75.543	-do-	-do-
8	Muar (Manakachhar Tola)	-do-	-do-	48.877	-do-	-do-
9	Sonpur	-do-	Sohagpur	420.62	-do-	-do-
10	Kukara	-do-	-do-	66.490	-do-	-do-
11	Nandner	-do-	-do-	25.680	-do-	-do-
12	Dhargaon	Forest Village	Pipariya	312.710	-do-	-do-
13	Nankot	-do-	-do-	60.000	-do-	-do-
14	Anjandhana	-do-	-do-	411.000	-do-	-do-
15	Nayakheda	-do-	-do-	143.594	-do-	-do-

16	Raikheda	-do-	-do-	273.550	-do-	Relocated
17	Paraspani	-do-	-do-	142.020	-do-	-do-
18	Birjikhapa	-do-	-do-	161.874	-do-	-do-
19	Ghana (Katiya Khari)	Revenue Village	Pipariya	131.495	-do-	-
20	Pagara	-do-	-do-	29.547	-do-	-
21	Bariaam	-do-	-do-	98.788	-do-	-
22	Chakar	-do-	-do-	175.907	-do-	
23	Singanama	-do-	-do-	318.347	-do-	
24	Jhiriya	Forest Village	Pipariya	77.690	Buffer	
25	Nandiya (Gutkhera Tola)	Revenue Village	Pipariya	183.477	-do-	
26	Supdongar	-do-	-do-	146.932	-do-	
27	Sankari	-do-	-do-	0.743	-do-	
28	Churni	-do-	-do-	486.885	-do-	
	<b>Total</b>			<b>5165.680</b>		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, अपर सचिव.